



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 755 राँची, बुधवार

1 अगस्त, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

12 फरवरी, 2018

संख्या-5/आरोप-1-53/2017-136 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्रीमती नमिता नलिनी बाखला, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-776/03), सम्प्रति-निलंबित के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना सं०-2507, दिनांक 19 मई, 2017 तथा विभागीय अधिसूचना सं०-6585, दिनांक 26 मई, 2017 की अवहेलना करते हुए उक्त अधिसूचित पदों पर योगदान नहीं देने तथा लम्बे समय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने संबंधी आरोप, जैसा कि ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1857, दिनांक 17 अप्रैल, 2017 से प्राप्त प्रपत्र-‘क’ एवं विभाग द्वारा गठित पूरक प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

Sr No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the competent Authority
1	NAMITA NALINI BAXLA (BHR/BAS/3581)	Initiation of Departmental proceeding

2. अतः श्रीमती बाखला के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपो की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है ।
3. तदनुसार एतद् द्वारा श्रीमती बाखला को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने कि तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ ।
4. श्रीमती बाखला द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं ।
5. श्रीमती बाखला के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।
6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव पर सरकार का आदेश प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,

सरकार के संयुक्त सचिव

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2502
